

हार्वेल अज़ूड - सम्पूर्ण सिंचाई समाधान

हार्वेल एग्वा इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, अज़ूड - स्पेन तथा हार्वेल - इण्डिया का एक तकनीकी - वाणिज्यिक संयुक्त साझा उपक्रम है। अज़ूड सूक्ष्म सिंचाई एवं फिल्ट्रेशन सयंत्र बनाने वाली यूरोप की अग्रणी कंपनी है तथा हार्वेल भारत की 1982 से इरीगेशन इंजीनियरिंग क्षेत्र की संस्थापित कंपनी है। यह उपक्रम अपने ग्राहकों की संतोषपूर्ण सेवा एवं उच्च गुणवत्ता के उत्पाद देने के लिए संकल्पित एवं प्रतिबद्ध है।

अज़ूड्रिप

अज़ूड्रिप में है अत्याधुनिक ड्रिपसेफर तकनीकी। इसके प्रत्येक ड्रिपर में है फ़िल्टर, जोकि ड्रिपर में कचरा जमा नहीं होने देता है। यह ड्रिपलाइन १२ मि.मी., १६ मि.मी. और २० मि.मी. व्यास में उपलब्ध है। फसल और सिंचाई की आवश्यकतानुसार ड्रिपर के बीच की दूरी ३० से १५० सेंटीमीटर है तथा ड्रिपर १.६, २.० एवं ४.० लि. प्रति घंटा प्रवाहदर में उपलब्ध है। सभी तरह की सब्जियों, गन्ना, कपास, पपीता, केला, फूलों की खेती इत्यादि के लिए खास उपयोगी है।

अज़ूडलाइन

अज़ूडलाइन चपटे ड्रिपर वाली ड्रिपलाइन है। इसमें अत्याधुनिक ड्रिपसेफर तकनीकी होती है जोकि बिना कचरा जमा होने दिए सिंचाई करने में सक्षम है। यह ड्रिपलाइन १२ मि.मी. से २० मिल व्यास में उपलब्ध है, जिसमें ड्रिपर के बीच की दूरी ३० से २५० सेंटीमीटर है और प्रवाहदर २.० से ४.० लि. प्रति घंटा है। सभी तरह की सब्जियों, फूलों की खेती इत्यादि के लिए खास उपयोगी है।

अज़ूड्रिप (पी.सी.डी.आई.एस.)

यह प्रवाह नियंत्रित ड्रिपलाइन है, जोकि प्रेशर नियंत्रित करते हुए समान प्रवाह से ऊँची - नीची जमीन पर सिंचाई करने में सक्षम है। इसमें है अज़ूड ड्रिपसेफर तकनीकी। फसल और सिंचाई की आवश्यकतानुसार यह १२ मि.मी. और १६ मि.मी. में उपलब्ध है। इसमें ड्रिपर के बीच की दूरी २५ से २५० सेंटीमीटर है तथा प्रवाहदर १.६ से ४.० प्रति घंटा है। सभी तरह की सब्जियों, गन्ना, कपास, फूलों की खेती एवं सघन बागवानी के लिए खास उपयोगी है।

अज़ूड नाविया ड्रिपर

ऑन लाइन ड्रिपर अज़ूड नाविया प्रेशर नियंत्रित करते हुए समान प्रवाह से उँची-नीची जमीन पर सिंचाई करने में सक्षम है। ड्रिपर प्रवाह दर - २, ४ और ८ ली. प्रति घंटा यह सभी प्रकार के फलों की खेती, बागवानी के लिए खास उपयोगी है।

अज़ूड रेनटेक (माइक्रो रिप्रिंक्लर)

अज़ूड रेनटेक (माइक्रो रिप्रिंक्लर) २ किग्रा/सेमी² दबाव पर ३१ से १६४ लि. प्रति घंटा की प्रवाहदर में उपलब्ध है और ०.९ से ९.० मीटर व्यास तक सिंचाई करने में सक्षम है। इनका उपयोग नर्सरी, सब्जियों और बागों में किया जा सकता है। मिस्टर यह ३१ से ८१ लि. प्रति घंटा प्रवाहदर में उपलब्ध है और इसका व्यास १.० से १.४ मीटर तक है। इनका उपयोग ग्रीन हाउस, डेयरी तथा पोल्ट्री में तापमान कम करने और आद्रता बढ़ाने में किया जाता है।

अज़ूड ए.जी. एल फ़िल्टर

अज़ूड ए.जी.एल फ़िल्टर, उच्च दर्जे की प्लास्टिक से बना मेनुअल फ़िल्टर है। यह विशेष रूप से खेती के उपयोग में लाया जाता है। यह २" एवं ३" साइज़ में उपलब्ध है। विशिष्ट हाइड्रोलिक डिज़ाइन के कारण हेड लॉस कम होता है और उर्जा की बचत होती है। अज़ूड ए.जी.एल फ़िल्टर का अधिकतम दबाव ८ बार और अधिकतम तापमान ६०° सेंटीग्रेड है।



अज़ूड हेलिकल डिस्क फ़िल्टर

अज़ूड हेलिकल डिस्क फ़िल्टर में पेटेन्टेड "हेलिकस तकनीकी" है, जिसके हेलिकल प्रभाव उत्पन्न होने से श्रेष्ठ फ़िल्टरेशन होता है। यह उच्च दर्जे की प्लास्टिक से बना है जिसके कारण इस पर एसिड और रसायन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा जंग लगने की संभावना नहीं होती है और इसमें कम रख रखाव की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म सिंचाई सिस्टम के लिए फ़िल्टर २००, १३० तथा १०० माइक्रोन फ़िल्टरेशन डिग्री में उपलब्ध है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र के लिए अज़ूड फ़िल्टर ५ माइक्रोन फ़िल्टरेशन डिग्री तक उपलब्ध है।



हार्वेल प्रेशर गेज

अज़ूड प्रेशर गेज, ग्लिसरीन युक्त है जोकि विषम परिस्थितियों में भी सही रीडिंग देने में सक्षम है। इसे कम से कम रख रखाव की आवश्यकता है तथा यह ज्यादा समय तक टिकाऊ रहता है।



फॉगर

फॉगर संरक्षित खेती में नमी को नियंत्रित करने का काम करता है। इसमें ९०° के कोण पर लगी हुई चार नोज़ल होती हैं जिनका प्रवाह ३२ (८X४) लि. प्रति घंटा होता है। अज़ूड फॉगर १०० माइक्रोन तक की महीन बूँदें बना सकता है। इसका प्रयोग ग्रीनहाउस, नर्सरी, मवेशीघरों तथा मुर्गीघरों में नमी एवं ठंडक बनाने के लिए होता है।



वेन्चुरी

यह ३/४" एवं २.०" विस्तार में उपलब्ध है। इसमें खास तरह का प्रवाह मापक एवं प्रवाह नियंत्रण लगा होता है जोकि समुचित मात्रा में खाद और पानी के मिश्रण के प्रवाह को नियंत्रित करने में सक्षम है। यह अधिकतम ९४.८ लि. प्रति घंटा (३/४") और २२९६.० लि. प्रति घंटा (२.०") का प्रवाह (इन्जेक्शन रेट) दे सकता है।



हार्वेल एग्वा प्राइवेट लिमिटेड

(इंडो - स्पैनिश ज्वाइन्ट वेन्चर)



301-304 मेघदूत, 94 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली - 110019



+91-11-46224444, टोल फ्री - 1800 11 6070



info@harvel.in  www.harvelazud.in

अधिकृत वितरक :

Group Companies



Accreditations & Certifications

ISO 9001:2015 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007